



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15—फरवरी 21, 2014 (माघ 26, 1935)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15—FEBRUARY 21, 2014 (MAGHA 26, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	335	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	109	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	245	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 121
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 33
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 183
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	335	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	109	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	245	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	121
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	33
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	183
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the . Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2014

संकल्प

सं. ई-11015/03/2013-हिन्दी--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 15.03.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-II/20015/45/87 रा.भा. (क-2) के अनुसरण में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति का कार्यकाल, गठन तथा कार्य आदि निम्नोक्त प्रकार होंगे:-

1. मंत्री, अध्यक्ष
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

2. श्री मदन लाल शर्मा, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
22, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

स्थायी पता:
गाँव- पलाटन,
डाकघर- पाल्लानवाला,
तहसील- अखनूर,
जिला- जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
पिन- 181204

3. श्री प्रदीप टम्टा, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
111, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली- 110011

स्थायी पता:
ग्राम एवं डाकघर-लोब,
जिला- बागेश्वर,
(उत्तराखण्ड) पिन- 263628

संसदीय कार्य मंत्रालय के सदस्य

4. श्री नारायण सिंह अम्लाबे, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
89, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली -110011

स्थायी पता:

श्री नारायण सिंह अम्लाबे,
ग्राम- अम्लाबे
डाकघर- कोड़किया
तहसील- जीरापुर
जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

5. श्री पी.सी. मोहन, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
160, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली- 110011

स्थायी पता:

श्री पी.सी. मोहन,
1928, 30वां क्रॉस,
12वां मेन, बनशंकरी दूसरी स्टेज,
बंगलुरु-560070, कर्नाटक

6. श्रीमती कुसुम राय, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
सी-704, स्वर्ण जयन्ती सदन,
डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

स्थायी पता:

श्रीमती कुसुम राय,
ई-डी-1, राजाजीपुरम
लखनऊ (उ.प्र.) पिन - 226017

7. डॉ. ईश्वर सिंह, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
5, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली- 110011

स्थायी पता:

डॉ. ईश्वर सिंह,
70, सेक्टर 13, कुरुक्षेत्र, हरियाणा

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

8. श्री अमरेंद्र प्रताप मल्ल, सदस्य
ग्राम- रंधिया देवरिया,
पोस्ट- हाट,
जिला- कुशीनगर, उत्तर प्रदेश
पिन- 274203

9.	श्री अनवर जकी, ग्राम- मथौली, पोस्ट एवं तहसील- कसिया, जिला- कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	सदस्य	15.(क) श्री के.वी. रामप्रसाद # 195, भाग्यलक्ष्मी निलय, श्री अंजनेयस्वामी टेम्पल स्ट्रीट, मुलबगल-563131, कोलार जिला - कर्नाटक	सदस्य
10.	श्री राजकुमार सिंह, ग्राम- सेखुईखास, पोस्ट- नेबुआ रायगंज, जिला- कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	सदस्य	(ख) मैसर्स वर्दराजा थिएटर, एम सी रोड, मुलबगल,	
केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा नामित सदस्य			16. श्री अकबर शरीफ, आजाद मेन रोड, श्रीनिवासपुरा, कोलार, कर्नाटक-563135	सदस्य
11.	श्री सुरेश तिवारी साहित्य एवं संस्कृति मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023	सदस्य	राजभाषा विभाग के अधिकारीगण	
स्थायी पता: श्री सुरेश तिवारी एच-1202, आम्रपाली विलेज, न्यायखंड-2, (निकट काला पत्थर) इन्द्रापुरम, गाजियाबाद-201014 (उ.प्र.)			17. सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा नामित सदस्य			18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
12.(क) डॉ. पद्माकर पाण्डे प्रधानमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 16-ए, अरूणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110067			सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारीगण	
(ख) स्थायी पता: के-65/22, गोला दीनानाथ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) पिन - 221001			19. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
अन्य गैर-सरकारी सदस्य (हिन्दी भाषा के विद्वान)			20. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
13.(क) श्री हरीश अबरोल छिंदा, 3 सी/43, प्रथम तल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग (लिबर्टी सिनेमा के सामने), नई दिल्ली- 110005	सदस्य		21. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108	सदस्य
(ख) जी-10 तथा जी-12, डबल स्टोरी क्वार्टर्स, मोतिया खान, नई दिल्ली-110055			22. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, ओखला, नई दिल्ली-110020	सदस्य
14. श्री दयानंद शुक्ला, गाँव-नौगवां डीह, पोस्ट- देवईथ जिला- फैजाबाद (उ.प्र.)			23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई- 400056 (महाराष्ट्र)	सदस्य
			24. अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोच्चि- 682016 (केरल)	सदस्य
			25. महानिदेशक, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा-201309 (उ.प्र.)	सदस्य
			26. निदेशक, भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी -781029 (असम)	सदस्य

27.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद- 500045 (आंध्रप्रदेश)	सदस्य	आदेश
28.	निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी), वर्धा- 442001 (महाराष्ट्र)	सदस्य	आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजी जाए।
29.	संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य	यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकशित किया जाए।
30.	संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य-सचिव	सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी संयुक्त सचिव
2.	कार्य		उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2014
3.	कार्यकाल		संकल्प
	समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तीन वर्ष का होगा:-		सं. 8-12/2013-एस. एंड आई.--दिनांक 08.05.2000 के संकल्प सं. 8-1/2000 - एस. एंड आई. द्वारा अधिसूचित और भारत के राजपत्र, जून 3, 2000 (खंड-1 भाग-1) में प्रकाशित संकल्प द्वारा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की खरीद के लिए उनकी विनिर्दिष्टियां तैयार करने हेतु सरकार को सुझाव/सिफारिश देने के लिए गठित समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-
	(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।		1. संयुक्त सचिव (नीति) -- अध्यक्ष
	(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।		2. संयुक्त आयुक्त (भंडारण एवं अनुसंधान) -- सदस्य-सचिव
	(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे।		3. कार्यकारी निदेशक, (गु.नि.), भारतीय खाद्य निगम-- सदस्य
4.	विविध		4. महाप्रबंधक (गु.नि.), भारतीय खाद्य निगम -- सदस्य
	समिति का प्रधान कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में होगा। लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।		5. सचिव (खाद्य), पंजाब सरकार -- सदस्य
5.	यात्रा तथा अन्य भत्ते		6. सचिव (खाद्य), आंध्र प्रदेश सरकार -- सदस्य
	(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।		7. सचिव (खाद्य), उत्तर प्रदेश सरकार -- सदस्य
	(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/22034/04/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।		8. सचिव (खाद्य), केरल सरकार -- सदस्य
			9. सचिव (खाद्य), मध्य प्रदेश सरकार -- सदस्य
			10. सचिव (खाद्य), महाराष्ट्र सरकार -- सदस्य
			11. सचिव (खाद्य), असम सरकार -- सदस्य
			12. सचिव (खाद्य), उड़ीसा सरकार -- सदस्य
			13. सी. एफ. टी. आर. आई., मैसूर के निदेशक अथवा उनके नामित -- सदस्य

2. समिति का कार्य निम्नानुसार होगा:—

- (1) खरीफ और रबी विपणन मौसमों के शुरू होने से पूर्व प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय पूल में खरीद के लिए खाद्यान्नों की एक समान विनिर्दिष्टियां तैयार करने के लिए सुझाव / सिफारिश देना।
- (2) प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि के कारण खाद्यान्न, फसलों / कटाई पश्चात् खाद्यान्नों की क्षति होने के मामले में राज्य सरकार के अनुरोध पर एक समान विनिर्दिष्टियों में ढील देने के लिए सुझाव/ सिफारिश देना।
- (3) समिति प्रत्येक खरीफ और रबी विपणन मौसम शुरू होने से काफी पहले वर्ष में दो बार बैठक करेगी और विनिर्दिष्टियाँ तैयार करने के बारे में सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी।
- (4) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए किसी प्रकार की सचिवालयी सहायता मुहैया नहीं की जाएगी। समिति को यह कार्य सदस्यों के पास मौजूद कर्मचारियों का उपयोग करके ही करना होगा। समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाई की मानीटरिंग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में एस. एंड आई. अनुभाग द्वारा की जाएगी।
- (5) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के टी. ए. / डी. ए. का खर्च उनके संबंधित विभागों / संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सचिवों, भारतीय खाद्य निगम तथा संदर्भाधीन समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यू. के. एस. चौहान
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2014

संकल्प

सं. 1-20/2010-संस्कृत-II (पार्ट)--संस्कृत शिक्षा की वर्तमान स्थिति का, इसके सभी पहलुओं के संदर्भ में मूल्यांकन करने और संस्कृत भाषा में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा की आधुनिक पद्धति के साथ जोड़ने हेतु, एतद्द्वारा द्वितीय संस्कृत आयोग के गठन का संकल्प किया जाता है जिसमें निम्नलिखित लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान शामिल होंगे:—

1. प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, अध्यक्ष
लब्ध प्रतिष्ठ संस्कृत विद्वान,
ज्ञानपीठ और पद्म भूषण से पुरस्कृत
2. श्री गौतम पटेल, सदस्य
पूर्व अध्यक्ष,
संस्कृत साहित्य अकादमी
गुजरात

3. प्रोफेसर सुदर्शन शर्मा, सदस्य
पूर्व कुलपति,
तिरुपति वैदिक विद्यापीठ तिरुपति
4. श्री देवर्षि कलानाथ शास्त्री सदस्य
मुख्य संपादक भारती संस्कृत मासिक पत्रिका,
पूर्व अध्यक्ष,
राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर
5. प्रोफेसर मानवेन्दु बनर्जी, सदस्य
अवैतनिक सचिव,
संस्कृत साहित्य परिषद्
कोलकाता
6. प्रोफेसर के. रामासुब्रह्मनियन सदस्य
संस्कृत में भारतीय विज्ञान और शिल्प
विज्ञान प्रकोष्ठ, आईआईटी, मुंबई
7. डॉ. पी. रामानुजन सदस्य
एसोसिएट डायरेक्टर (इंडियन हेरीटेज एंड लैंग्विज
कम्प्यूटिंग) सी-डैक, बंगलौर
8. प्रोफेसर आर. के. दुबे सदस्य
वरिष्ठ प्रोफेसर और अध्यक्ष (सेवानिवृत्त),
मेटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग विभाग,
आईआईटी, कानपुर
9. प्रोफेसर वेमपति कुटुम्ब शास्त्री सदस्य
अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन संघ पैरिस
तथा कुलपति,
श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वेरावल, गिर-
सोमनाथ, जिला, गुजरात
10. डॉ. मोहन गुप्ता सदस्य
डी. लिट., भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त)
पूर्व कुलपति,
महर्षि पणिनि संस्कृत तथा वैदिक विश्वविद्यालय,
उज्जैन
11. प्रोफेसर स्वप्ना देवी, सदस्य
संस्कृत विभाग
असम विश्वविद्यालय
सिलचर
12. डॉ. योगानंद शास्त्री सदस्य
पूर्व प्रोफेसर, भगत सिंह कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
13. कुलपति, सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
नई दिल्ली

2. आयोग के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे:--

- i. स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में संस्कृत शिक्षा प्रदान करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करना और अनुसंधान सहित सभी स्तरों पर संस्कृत के शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव देना।
 - ii. संस्कृत शिक्षा की पारंपरिक पद्धति का परीक्षण कर उन विशिष्टताओं का पता लगाना जिन्हें आधुनिक शिक्षण पद्धति में समाविष्ट किया जाना उपयोगी हो।
 - iii. संस्कृत शिक्षा को अन्य विषयों, जैसे-भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, विधि, वास्तुशिल्प, भाषा इत्यादि के साथ जोड़ने के उपायों के संबंध में सुझाव देना ताकि उन्हें आधुनिक समय के अनुकूल और प्रासंगिक बनाया जा सके।
 - iv. अनौपचारिक अथवा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संस्कृत की शिक्षा देने के संबंध में सुझाव देना।
 - v. आधुनिक उपकरणों की सहायता से संस्कृत शिक्षा प्रदान करने की नई पद्धति का उपयोग करने के तरीकों के संबंध में सुझाव देना।
 - vi. क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत की मानक कृतियों और संस्कृत भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाओं के अनुवाद हेतु विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुवाद ब्यूरो की स्थापना के संबंध में सुझाव देना और
 - vii. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्तरोन्नत करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।
3. (क) आयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य ऐसे प्राधिकरणों, संगठनों, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों, जो आयोग के विचार से उसके कार्य में सहायक हो सकते हैं, से लिखित रूप में अथवा गवाहों के परीक्षण द्वारा अथवा अन्य जिस प्रकार से भी उन्हें उचित लगे, ऐसी सूचना, जिसे वह अपने विचाराधीन किसी मामले को अपने मत के निर्धारण के लिए उपयोगी अथवा संगत मानता है, मांग सकता है;
- (ख) आयोग अपनी क्रियाविधियों जिसमें उनकी बैठकों के स्थान और समय नियम करना और यह निर्धारित करना शामिल है कि बैठक सार्वजनिक होगी अथवा गुप्त होगी, का विनियमन स्वयं करेगा;
- (ग) आयोग अपने सदस्यों में से ऐसी और उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकता है ताकि वे उन अधिकारों का प्रयोग और उन कार्यों का निष्पादन कर सकें जो उन्हें आयोग द्वारा प्रत्यायोजित किए गए हैं;
- (घ) आयोग स्वयं या अपनी उप समितियों को देश के ऐसे भागों का दौरा करने के लिए कह सकता है जिन्हें वह आवश्यक अथवा महत्वपूर्ण समझे; और
- (ङ) आयोग सदस्यों के पद की अस्थायी अनुपस्थिति अथवा सदस्यों के पद के रिक्त होने की दशा में भी कार्य कर सकता है।

(च) आयोग अपनी उन समितियों में सहायता हेतु विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

4. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आयोग को आवश्यक सचिवीय सहायता प्रदान करेगा और उनकी बैठकों पर होने वाला व्यय, जिसमें सदस्यों के टीए/डीए शामिल हैं, को भारत सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वहन करेगा।

5. आयोग इस संकल्प के जारी होने के एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जगमोहन सिंह राजू
संयुक्त सचिव

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

सं. 1-22/2013-आरएमएसए. I--राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के कार्य ढांचा दस्तावेज के अध्याय-V (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार) के पैरा 5.1 और 5.2 में निम्नलिखित उल्लिखित है:--

“5.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। गुणवत्ता संबंधी अंतःक्षेप गुणवत्ता अवसंरचना, प्रबंधन सूचना पद्धति, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण संसाधन, शिक्षक अर्हता, प्रतिस्पर्धा, स्कूलों में विषय विशिष्ट तैनाती, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, सभी स्तरों पर शैक्षणिक सहायता, कक्षा-कक्षा आधारित सहायता और पर्यवेक्षण मुद्दों आदि के रूप में इस स्तर की जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने पर केन्द्रित होंगे।

5.2 मिशन राज्यों को बच्चों के समग्र विकास, खेल-कूद को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यकलापों, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण पर अन्योन्य क्रिया वाले परियोजना कार्य, कार्यकलाप आधारित शिक्षण, स्वास्थ्य पोषण, व्यवसाय आदि से संबंधित जीवन कौशल सिखाने आदि पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कार्य अनुभव के प्रोत्साहन में बच्चों का पेशेवरों, किसानों, दस्तकारों से जुड़ना जरूरी है ताकि वे सामाजिक और प्राकृतिक संदर्भ में निपुणता हासिल कर सकें”।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) का गठन किया जाना है। एनआरजी माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आरएमएसए कार्यक्रम को निदेशित करने में अहम भूमिका निभाएगा। तदनुसार, 18 दिसम्बर, 2013 से आरएमएसए हेतु एनआरजी का एतद्द्वारा निम्नानुसार गठन किया गया है:--

- (1) सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उपाध्यक्ष परिषद् (एनसीईआरटी)

- | | |
|--|---|
| (3) कुलपति, राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन परिषद् सदस्य
(एनयूईपीए) | (iii) निदेशक, एससीईआरटी, उत्तर प्रदेश |
| (4) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सदस्य
(एनसीटीई) | (iv) निदेशक, एससीईआरटी, नागालैंड |
| (5) अपर सचिव (एसई), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सदस्य | (15) अध्यक्ष, एनआरजी द्वारा मूल्यांकन और शिक्षण परिणामों, समावेशी शिक्षा (आईई), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), बालिका शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, जनजातीय शिक्षा, किशोर शिक्षा के मामले, स्कूल, नेतृत्व संबंधी प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ नामित किया जाना है: |
| (6) अपर सचिव (ईई), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सदस्य | (i) डॉ. रुक्मिणी बैनर्जी |
| (7) संयुक्त सचिव, एसई-I सदस्य | (ii) प्रो. अनिता जुल्का |
| (8) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सदस्य | (iii) प्रो. रश्मि दीवान |
| (9) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सदस्य
(एनसीटीई) | (iv) श्री अनवर सादात, निदेशक, आईटी स्कूल, केरल |
| (10) विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी सदस्य | (v) प्रो. गौरी श्रीवास्तव |
| (11) विभागाध्यक्ष, शिक्षा मापन और मूल्यांकन विभाग (डीईएमई), एनसीईआरटी सदस्य | (vi) श्री हलीम खान/प्रो. जुबेर मिनाय, जामिया मिलिया इस्लामिया |
| (12) उपाध्यक्ष, एनआरजी (निदेशक, एनसीईआरटी) द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आरआईई) से एक प्रतिनिधि नामित किया जाना है-- सदस्य | (vii) डॉ. मिनाति पांडा, जेएनयू |
| (क) आरआईई, मैसूर | (viii) प्रो. सरोज यादव, विभागाध्यक्ष, डीईएसएस, एनसीईआरटी |
| (ख) आरआईई, शिलांग | (ix) श्री सुबीर शुक्ला, निदेशक, आईजीएनयूएस, पहल |
| (ग) आरआईई, भुवनेश्वर | (16) अध्यक्ष, एनआरजी द्वारा माध्यमिक अध्यापक शिक्षा, अध्यापक कार्य-प्रदर्शन, विज्ञान और गणित, छात्र मूल्यांकन पद्धति, विशेष प्रशिक्षण और निर्माण कार्यक्रम क्षेत्र के दो-दो विशेषज्ञ नामित किए जाने हैं: |
| (घ) आरआईई, अजमेर | (i) अध्यापक शिक्षा विशेषज्ञ प्रो. रामा मैथ्यू, दिल्ली विश्वविद्यालय |
| (ङ) आरआईई, भोपाल | (ii) अध्यापक कार्य-प्रदर्शन विशेषज्ञ प्रो. जैकब थारू |
| (13) अध्यक्ष, एनआरजी द्वारा पांच क्षेत्रों से एक-एक राज्य प्रतिनिधि नामित किया जाना है। सदस्य | (iii) विज्ञान विशेषज्ञ प्रो. अमिताभ मुखर्जी, दिल्ली विश्वविद्यालय |
| (i) शिक्षा सचिव, तमिलनाडु | (iv) गणित विशेषज्ञ प्रो. अनिता रामपाल, दिल्ली विश्वविद्यालय |
| (ii) शिक्षा सचिव, गुजरात | (v) छात्र मूल्यांकन पद्धति विशेषज्ञ डॉ. नर्गिस पंचापकेसन |
| (iii) शिक्षा सचिव, मध्यप्रदेश | (vi) विशेष प्रशिक्षण विशेषज्ञ श्री वेंकट रेड्डी, एम. वी. फाउंडेशन |
| (iv) शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश | |
| (v) शिक्षा सचिव, असम | |
| (14) अध्यक्ष, एनआरजी द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के चार निदेशक नामित किए जाने हैं। सदस्य | |
| (i) निदेशक, एससीईआरटी, कर्नाटक | |
| (ii) निदेशक, एससीईआरटी, आंध्र प्रदेश | |

(17) उपाध्यक्ष (निदेशक एनसीईआरटी), एनआरजी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यवाहिका (एनसीएफ) 2005 के प्रमुख पाठ्यचर्या क्षेत्रों के पांच विशेषज्ञों को नामित किया जाना है:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(18) सभी निदेशक/उप-सचिव, आरएमएसए, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(19) मुख्य सलाहकार, शिक्षा-शास्त्र इकाई, तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी), ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड

(20) अध्यक्ष, आरएमएसए प्रोजेक्ट सैल, एनसीईआरटी सदस्य-सचिव

3. राष्ट्रीय संसाधन समूह के नामित सदस्यों (उपर्युक्त कॉलम 13 और 15 से 17 में दर्शाए गए) का कार्यकाल दो वर्ष या उनके परवर्ती अधिकारियों के नामांकन तक, जो भी बाद में हो, होगा।

4. एनआरजी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार प्रस्तावित हैं:--

(i) निरीक्षण/समीक्षा और आरएमएसए के तहत गुणवत्ता अंतःक्षेपों (शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षण कार्य, स्कूल-कार्य प्रदर्शन की गुणवत्ता सुधार के अंतःक्षेप) के संबंध में उपाय सुझाना।

(ii) माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पैकेज/माड्यूल के संबंध में निरीक्षण/समीक्षा/संबंधी उपाय सुझाना।

(iii) माध्यमिक शिक्षा में आरएमएसए के तहत निगरानी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई निगरानी/मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करना।

(iv) शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य में लगी संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ एसएसए/आरएमएसए/टीई के बीच समन्वय बढ़ाना।

5. एनआरजी की एक वर्ष की कम से कम दो बैठकें होंगी।

6. एनसीईआरटी द्वारा एनआरजी को सचिवालय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

7. एनआरजी, जैसा उपयुक्त समझे, विशिष्ट क्षेत्रों की देख-रेख के लिए इस प्रकार के उप-समूहों का गठन कर सकता है।

8. एनआरजी के कार्यकलापों और सिफारिशों से संबंधित रिपोर्टें मिशन कार्यकारी समिति के माध्यम से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन को प्रस्तुत की जाएंगी।

केरालिन खोंगवार देशमुख
निदेशक

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 22nd January 2014

RESOLUTION

No. E-11015/03/2013-Hindi—The Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises in pursuance of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs O.M. No. II/20015/45/87-OL (A-2) dated 15.3.1988. The tenure of the Samiti, its functions and composition etc. is given as hereunder:-

- | | |
|---|----------|
| 1. Minister, | Chairman |
| Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises | |

MEMBERS OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 2. Shri Madan Lal Sharma, | Member |
| Member of Parliament (Lok Sabha), | |
| 22, Dr. Rajendra Prasad Marg, | |
| New Delhi-110001 | |

Permanent Address:
Village - Palatan,
Post Office - Pallanwalla,
Tehsil Akhnoor,
Distt. Jammu (Jammu & Kashmir)
PIN - 181204

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 3. Shri Pradeep Tamta, | Member |
| Member of Parliament (Lok Sabha), | |
| 111, South Avenue, | |
| New Delhi - 110011 | |

Permanent Address:
Village & P.O. Lob,
Distt. Bageshwar,
(Uttarakhand)
PIN - 263628

MEMBERS OF M/O PARLIAMENTARY AFFAIRS

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 4. Shri Narayan Singh Amlabe, | Member |
| Member of Parliament (Lok Sabha), | |
| 89, North Avenue, | |
| New Delhi - 110001 | |

Permanent Address:
Village - Amlabe,
P.O. Kodkiya,
Tehsil - Jeerapur,
District - Rajgarh, (Madhya Pradesh)

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 5. Shri. P.C. Mohan, | Member |
| Member of Parliament (Lok Sabha), | |
| 160, South Avenue, | |
| New Delhi-110 011 | |

Permanent Address:
Shri. P.C. Mohan
1928, 30th Cross,
12th Main, Banshankari 2nd Stage,
Bangaluru, 560070, Karnataka

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 6. Smt. Kusum Rai, | Member |
| Member of Parliament (Rajya Sabha), | |
| C-704, Swarna Jayanti Sadan, | |
| Dr. B.D. Marg, | |
| New Delhi-110001 | |

Permanent Address:
Smt. Kusum Rai
E-D-1, Rajajipuram,
Lucknow (U.P.)
PIN - 226017

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 7. Dr. Ishwar Singh, | Member |
| Member of Parliament (Rajya Sabha), | |
| 5, South Avenue, | |
| New Delhi-110011 | |

Permanent Address:
Dr. Ishwar Singh,
70, Sector-13, Kurukshetra, Haryana

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 8. Shri Amrendra Pratap Mall, | Member |
| Village-Radhiya Deoria, | |
| Post-Hata, Distt. Kushinagar (U.P.) | |
| PIN-274203 | |

- | | |
|--------------------------|--------|
| 9. Shri Anwar Zaki, | Member |
| Village-Mathauli, | |
| Post-Kasia, | |
| P.S.& Tehsil-Kasia | |
| Distt. Kushinagar (U.P.) | |

- | | |
|--------------------------|--------|
| 10. Shri Rajkumar Singh, | Member |
| Village-Sekhuikhas, | |
| Post-Nebua Rayganj, | |
| Distt. Kushinagar (U.P.) | |

MEMBER NOMINATED BY KENDRIYA SACHIVALYA HINDI PARISHAD

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 11. Shri Suresh Tiwari, | Member |
| Sahitya evam Sanskriti Mantri, | |
| Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, | |
| XY-68, Sarojini Nagar, | |
| New Delhi-110023 | |

Permanent Address:
Shri Suresh Tiwari,
H-1202, Amrapali Village, Nyaykhand-2,
(Near Kala Patthar)
Indrapuram, Ghaziabad - 201014 (U.P.)

MEMBER NOMINATED BY NAGRI PRACHARINI SABHA

- | | |
|--|--------|
| 12. (A) Dr. Padmakar Pandey, | Member |
| Pradhanmantri, Nagri Pracharini Sabha, | |
| 16-A, Aruna Asaf Ali Road, | |
| New Delhi-110067 | |

(B) Permanent Address:
K-65/22, Gola Dinanath,
Varanasi (Uttar Pradesh)
PIN - 221001

OTHER NON-OFFICIAL MEMBERS (Experts in Hindi Language)

13. (A) Shri Harish Abrol Chhinda Member
3C/43, 1st Floor, New Rohtak Road,
Karol Bagh (Opp-Liberty Cinema)
New Delhi-110005
- (B) G-10 and G-12,
Double Storey Quarters,
Motia Khan, New Delhi-110055
14. Shri Dayanand Shukla, Member
Vill-Naugawan Dih,
Post-Deoeth, Distt-Faizabad (U.P.)
15. (A) Shri K.V. Ramprasad, Member
195, Bhagyalakshmi Nilaya,
Sri Anjaneyaswamy Temple Street,
Mulbagal-563131. Kolar Distt. Karnataka
- (B) M/s Vardaraja Theatre,
MC Road, Mulbagal,
16. Shri Akbar Sharif, Member
Azad Main Road, Srinivaspura, Kolar,
Karnataka-563135

OFFICIALS OF DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

17. Secretary, Member
Department of Official Language
18. Joint Secretary, Member
Department of Official Language

OFFICIALS OF MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

19. Secretary, Member
Ministry of Micro, Small &
Medium Enterprises
20. Additional Secretary & Member
Financial Advisor,
Ministry of Micro, Small &
Medium Enterprises
21. Additional Secretary & Member
Development Commissioner,
Office of Development Commissioner
(MSME),
Nirman Bhawan, New Delhi- 110108
22. Chairman-Cum-Managing Director, Member
National Small Industries
Corporation Limited,
Okhla Industrial Area,
New Delhi-110020
23. Chief Executive Officer, Member
Khadi and Village Industries Commission,
Mumbai- 400056 (Maharashtra)

24. Chairman, Member
Coir Board,
Kochi- 682016 (Kerala)
25. Director General, Member
National Institute for Entrepreneurship
& Small Business Development,
Noida - 201309 (U.P.)
26. Director, Member
Indian Institute of Entrepreneurship,
Guwahati - 781029 (Assam)
27. Director General, Member
National Institute for Micro,
Small & Medium Enterprises,
Hyderabad- 500045 (Andhra Pradesh)
28. Director, Member
Mahatma Gandhi Institute
for Rural Industrialization (MGIRI),
Wardha- 442001 (Maharashtra)
29. Joint Secretary, Member
Ministry of Micro, Small &
Medium Enterprises
30. Joint Secretary, Member
Ministry of Micro, Small &
Medium Enterprises Secretary

2. Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry regarding progressive use of Hindi in official work.

3. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of formation provided that:—

- (a) Members of Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Parliament.
- (b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term for three years.

4. General

Headquarter of the Samiti will be at Udyog Bhawan, New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also.

5. Travelling and other Allowances.

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954",

amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language, Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2), dated 03.02. 2006.

- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M.No.II/22034/04/86-OL (A-2) dated 22 January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules, as amended from time to time, by Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, all the Ministries and Departments of the Government of India, Office of the Comptroller and Auditor General of India, all the Members of the Samiti and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information of general public.

SURENDRA NATH TRIPATHI
Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS & FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 31st January 2014

RESOLUTION

No. 8-12/2013-S&I—It has been decided to reconstitute the Committee to suggest/ recommend to the Government for formulation of specifications of foodgrains for Central Pool procurement notified vide Resolution No. 8-1/2000-S&I dated 8.5.2000 and published in the Gazette of India, June 3, 2000 (Part-1, Section-I). The Committee reconstituted is as under:—

- | | |
|---|---------------------|
| (i) Joint Secretary (Policy) | Chairman |
| (ii) Joint Commissioner (S&R) | Member
Secretary |
| (iii) Executive Director (QC),
Food Corporation of India | Member |
| (iv) General Manager (QC),
Food Corporation of India | Member |
| (v) Secretary (Food), Govt. of Punjab | Member |
| (vi) Secretary (Food),
Govt. of Andhra Pradesh | Member |
| (vii) Secretary (Food), Govt. of U.P. | Member |
| (viii) Secretary (Food), Govt. of Kerala | Member |

- | | |
|--|--------|
| (ix) Secretary (Food),
Govt. of Madhya Pradesh | Member |
| (x) Secretary (Food), Govt. of Maharashtra | Member |
| (xi) Secretary (Food), Govt. of Assam | Member |
| (xii) Secretary (Food), Govt. of Odisha | Member |
| (xiii) Director or his nominee from CFTRI,
Mysore | Member |

2. The function of the Committee shall be as under:

- To suggest/recommend for the formulation of Uniform Specification of foodgrains for Central Pool procurement every year before the commencement of Kharif & Rabi Marketing seasons.
- To suggest/recommend for relaxation in the Uniform Specifications on the request of State Government (s) in case of damage of foodgrain crops/harvested food grains due to natural calamities etc.

3. The Committee will meet twice in a year well before the commencement of each Kharif & Rabi Marketing season and will submit its suggestions/recommendations to the Government regarding formulation of Specifications.

4. No Secretariat assistance of any kind shall be provided by the Government for the job. The Committee shall manage the work on their own utilising the staff available with the members. Monitoring of the follow up on the report of the Committee shall be done by the S&I Section in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution).

5. Expenditure on account of TA/DA of the Chairman and the Members of the Committee shall be borne by their respective Departments/Institutions.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Food Secretaries of Food & Supplies Department of all the States and UT Administrations, Food Corporation of India and all members of the committee under reference.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

U.K.S. CHAUHAN
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th January 2014

RESOLUTION

No. 1-20/2010-Skt.II (Part)—In order to assess the present status of Sanskrit education in all its aspects and to integrate traditional Sanskrit knowledge into the modern system of education, it is hereby resolved to appoint Second Sanskrit

Commission with the following scholars:—

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prof. Satyavrat Shastri,
Eminent Sanskrit Scholar
Jnanpith and Padma Bhushan Awardee | Chairman |
| 2. Shri Gautam Patel,
Ex- President
Sanskrit Sahitya Academy
Gujarat. | Member |
| 3. Prof. Sudarsan Sarma,
Former Vice-Chancellor,
Tirupati Vedic Vidyapeetha, Tirupati. | Member |
| 4. Shri Devarshi Kalanath Shastri,
Chief Editor Bharti Sanskrit Monthly,
Ex-Chairman, Rajasthan Sanskrit Academy
Jaipur. | Member |
| 5. Prof. Manbendu Banerjee,
Hony. Secretary,
Sanskrit Sahitya Parishat,
Kolkata. | Member |
| 6. Prof. K. Ramasubramanian,
Cell for Indian Science and
Technology in Sanskrit, IIT, Mumbai | Member |
| 7. Dr. P. Ramanujan,
Associate Director (Indian Heritage and
Language Computing), C-DAC, Bangalore. | Member |
| 8. Prof. R.K. Dube,
Senior Professor and Head (Retd.),
Department of Material Science and
Engineering, IIT, Kanpur. | Member |
| 9. Prof. Vempaty Kutumba Sastry,
President, International Association of
Sanskrit Studies, Paris & Vice Chancellor,
Sri Somnath Sanskrit University, Veraval,
Gir-Somnath District, Gujarat. | Member |
| 10. Dr. Mohan Gupta,
D. Litt., I.A.S. (Retd.),
Former Vice Chancellor, Maharshi Panini
Sanskrit & Vedic Vishwavidyalaya, Ujjain. | Member |
| 11. Prof. Swapna Devi,
Department of Sanskrit,
Assam University,
Silchar. | Member |
| 12. Dr. Yoganand Shastri,
Former Professor Bhagat Singh College,
University of Delhi, New Delhi. | Member |
| 13. Vice Chancellor,
Rashtriya Sanskrit Sansthan,
New Delhi. | Member-
Secretary |

2. The terms of reference of the Commission will be-

- i. To undertake a survey of the existing facilities for Sanskrit Education in Schools, Colleges, Universities and other institutions and to suggest remedial measures for promoting the study of Sanskrit at all levels, including research;
- ii. To examine the traditional system of Sanskrit Education in order to find out what features from it could be usefully incorporated into the modern system;
- iii. To suggest measures to integrate Sanskrit studies with other disciplines like Physics, Chemistry, Mathematics, Medical Science, Law, Architecture, Languages etc., to make them more relevant to modern times;
- iv. To suggest measures for non-formal or distance education system for Sanskrit;
- v. To suggest ways and means to use new methods of imparting Sanskrit Education with the help of modern tools;
- vi. To devise means for setting up of translation bureau in Universities and institutions of higher learning for translating standard Sanskrit works in regional languages and vice-versa; and
- vii. To suggest road map for upgrading the Rashtriya Sanskrit Sansthan into an institution of National Importance.

3. The Commission may:-

- (a) obtain such information as they may consider useful for or form relevant to determine any matter under their consideration whether by asking for written memoranda or by examining witnesses or in such and in such manner as they may consider appropriate, from the Central Government, the State Governments, and such other authorities, organizations, institutions or individuals as may, in the opinion of the Commission, be of assistance to them;
- (b) regulate their own procedure, including the fixing of places and time of their sittings and deciding whether to sit in public or in camera;
- (c) appoint such and so many Sub-Committees from amongst their members to exercise such powers and perform such duties as may be delegated to them by the Commission;
- (d) visit or depute any of their Sub-Committees to visit such parts of the Territory of India as they consider necessary or expedient;
- (e) act, notwithstanding the temporary absence of any member or the existence of any vacancy among the members; and
- (f) co-opt experts to assist the Commission in its Sub-Committees.

4. Rashtriya Sanskrit Sansthan will provide the necessary secretarial assistance to the Commission and would meet the expenditure on its meetings including TA/DA of the members, as per Govt. of India Rules and Regulations.

5. The Commission will submit its report within one year of issue of this Resolution.

JAGMOHAN SINGH RAJU
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

New Delhi, the 18th December 2013

No. 1-22/2013-RMSA.1—Para 5.1 & 5.2 of Chapter-V (Quality Improvement in Secondary and Higher Secondary Education) of the Framework Document of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) states as under:

“5.1 The Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan is committed to universalize quality education at Secondary and Higher Stage. The focus in quality interventions would have to be on meeting the complex needs of this stage in terms of quality infrastructure, Management Information System, curriculum development, learning resources, teacher qualification, competency, subject specific deployment in schools, in service training of teachers and heads of the school, academic support at all level, classroom based support and supervision issues etc.

5.2 The Mission would encourage States to focus on total development of children, encouragement to sports, cultural activities, project work involving interaction with social and natural surroundings, activity based learning, exposure to life skills with regard to health, nutrition, professions, etc. Encouragement to work experience would require the attachment of children with professionals, farmers, artisans, in order to master the social and natural context.”

2. In pursuance of the above, the National Resource Group (NRG) for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) is to be constituted. The NRG would play a critical role in guiding the RMSA programme to meet the scheme objectives in quality improvement in secondary education. Accordingly, the NRG for RMSA is hereby constituted with effect from 18th December, 2013 as follows:

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Secretary, Government of India,
Department of School Education &
Literacy, Ministry of Human
Resource Development | Chairperson |
| (2) Director, National Council of
Educational Research & Training
(NCERT) | Vice
Chairperson |

- | | |
|---|---------|
| (3) Vice-Chancellor, National Council of
Education Planning & Administration
(NUEPA) | Member |
| (4) Chairperson, National Council for
Teacher Education (NCTE) | Member |
| (5) Additional Secretary (SE), Department
of School Education & Literacy,
Ministry of Human Resource
Development | Member |
| (6) Additional Secretary (EE), Department
of School Education & Literacy,
Ministry of Human Resource
Development | Member |
| (7) Joint Secretary, SE-I | Member |
| (8) Chairman, Central Board of
Secondary Education (CBSE) | Member |
| (9) Chairman, National Council of
Teacher Education (NCTE) | Member |
| (10) Head, Department of Teacher
Education, NCERT | Member |
| (11) Head, Department of Educational
Measurement and Evaluation (DEME),
NCERT | Member |
| (12) One representative from each Regional
Institutes of Education (RIE), to be
nominated by Vice Chairperson, NRG
(Director, NCERT) | |
| (a) RIE, Mysore | |
| (b) RIE, Shillong | |
| (c) RIE, Bhubaneswar | Members |
| (d) RIE, Ajmer | |
| (e) RIE, Bhopal | |
| (13) One State representative from five
regions to be nominated by
Chairperson, NRG: | |
| (i) Education Secretary of Tamil Nadu | |
| (ii) Education Secretary of Gujarat | |
| (iii) Education Secretary of
Madhya Pradesh | Members |
| (iv) Education Secretary of
Himachal Pradesh | |
| (v) Education Secretary of Assam | |
| (14) Four Directors of SCERT to be
nominated by Chairperson, NRG: | |
| (i) Director, SCERT, Karnataka | |
| (ii) Director, SCERT, Andhra Pradesh | Members |
| (iii) Director, SCERT, Uttar Pradesh | |
| (iv) Director, SCERT, Nagaland | |

- (15) One expert each in - Assessments and Learning Outcomes, Inclusive Education (I.E), Information and Communication Technology (ICT), Girls Education, Education of Minorities, Tribal Education, Adolescent Education Issues, School Leadership to be nominated by Chairperson, NRG:
- (i) Dr. Rukmini Banerjee
- (ii) Prof. Anita Jhulka
- (iii) Prof Rashmi Diwan
- (iv) Sh. Anwar Sadat, Director, IT @ School, Kerala
- (v) Prof. Gauri Srivastava
- (vi) Sh. Halim Khan/ Prof. Juber Minai, Jamia Millia Islamia
- (vii) Dr. Minati Panda, JNU
- (viii) Prof. Saroj Yadav, HoD, DESS, NCERT
- (ix) Shri. Subir Shukla, Director, IGNUS PAHAL
- (16) Two experts each in Secondary Teacher Education, Teacher Performance, Science and Maths, Pupil Evaluation Systems; Special Training and building programmes to be nominated by the Chairperson, NRG:
- (i) Expert in Teacher Education - Prof. Rama Mathew, Delhi University
- (ii) Expert in Teacher Performance - Prof. Jacob Tharu
- (iii) Expert in Science - Prof. Amitabh Mukherjee, Delhi University
- (iv) Expert in Mathematics - Prof. Anita Rampal, Delhi University
- (v) Expert in Pupil Evaluation System - Dr. Nargis Panchapakesan
- (vi) Expert in Special Training - Sh. Venkat Reddy, M.V. Foundation
- (17) Five experts on key curricular areas of National Curricular Framework (NCF) - 2005,
- to be nominated by Vice Chairperson, (Director, NCERT) NRG:
- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (18) All Directors / Deputy Secretaries, RMSA, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development
- (19) Chief Consultant, Pedagogy Unit, Technical Support Group (TSG), EdCIL (India) Ltd.
- (20) Head, RMSA Project Cell, NCERT
- Members
- Members
- Member
- Member Secretary
3. The term of nominated members of the NRG (at Sr. No. 13 & from 15 to 17 above) shall be two years or till nomination of their successors, whichever is later.
4. The Terms of References for the NRG are proposed as:
- (i) To oversee/review and suggest steps with regard to quality interventions under RMSA (interventions to improve the quality of teacher training, teaching practices, school performance etc.)
- (ii) To oversee/review/suggest steps regarding the various Teacher Training Programmes / Packages/ Modules in Secondary Education.
- (iii) To review the Monitoring/Evaluation Reports provided by monitoring institution under RMSA/ in Secondary Education.
- (iv) To enhance co-ordination between institutions involved in teacher training as well as to enhance coordination between SSA/RMSA/TE.
5. NRG will meet at least twice a year.
6. The secretarial support to the NRG will be provided by NCERT.
7. NRG may constitute such sub-groups for dealing with specific areas, as it may deem appropriate.
8. Activities and recommendations of the NRG shall be reported to the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan National Mission through the Mission's Executive Committee.
- CARALYN KHONGWAR DESHMUKH
Dir.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in